

PSL — Priority Sector Lending / Directed Lending
 प्राथमिक क्षेत्र उधार या निर्देशित उधार

बैंकों को अपने ऋणों का एक निश्चित न्यूनतम अनुपात कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए आवंटित करना पड़ता है। इसे PSL कहते हैं।

PSL में निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है -

- (i) Agriculture (कृषि) 18%
- (ii) Exports (निर्यात)
- (iii) BPL and Weaker Section (गरीबी रेखा के नीचे)
- (iv) Housing (मकान, भवन के लिए लोन)
- (v) Education (शिक्षा के लिए लोन)
- (vi) MSMEs
- (vii) Social Infrastructure
- (viii) Renewable Energy

UPSC: PT

Note:-

वर्तमान में भारत में PSL का स्तर 40% है लेकिन निम्न बैंकों के लिए इसका स्तर 75% है।

- (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(ii) लघु वित्तीय बैंक।

PSLCs - Priority Sector Lending Certificates :

- 2016 में RBI द्वारा शुरु।
- PSL का लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले बैंकों को इन्हें खरीदना पड़ता है। ये E-Kubon पर उपलब्ध होते हैं।
- एक PSL का आकार (Size) ₹25 लाख का होता है।

Niche Banks (नीश बैंक)

किसी समूह विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बैंक। नचिकेत मोर समिति

Payment Bank
(UPSC PT)

- (i) जमापें ले सकते हैं।
(अधिकतम ₹2 लाख)
- (ii) ऋण नहीं दे सकते हैं।
- (iii) क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते।
- (iv) इन्हें IT को मुख्य रूप से

Small Finance Bank

- (i) जमापें ले सकते हैं।
- (ii) ऋण दे सकते हैं।
- (iii) निम्न लोगों पर विशेष ध्यान देते हैं।
- (iv) सीमांत और लघु रुचक

- आधार बनाना होता है।
- (v) Mutual Funds, Insurance Policy आदि की मार्केटिंग कर सकते हैं।
 - (vi) उन्हें अपनी अमाओं का कम से कम 75% भाग Gi-Sec में निवेश करना पड़ता है।
 - (b) लघु व्यवसायिक ईकाईयों
 - (c) असंगठित क्षेत्र की ईकाईयों
 - (d) सूक्ष्म और लघु उपक्रम
 - (iv) कम से कम 50% त्रुटि ऐसे हों जिनमें प्रत्येक का मूल्य 25 लाख से अधिक नहीं हो।

Note:-

ये बैंक Horizontally differentiated banking Structure को भी प्रस्तुत करते हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

Mission के तहत 2014 में आमी 211 Financial Inclusion

- (i) शून्य बैलेंस अकाउंट
- (ii) अमायें (Deposits)
- (iii) DBT (Direct Benefit Transfer)
- (iv) Remittance of balance (धन का प्रेषण)
- (v) Rupay Card
- (vi) Accidental Insurance (22 लाख) दुर्घटना बीमा

(ii) Ownership facility (Max. ₹ 10000)

The BC Model of Banking : 2006
↳ Business Correspondent

बैंक मित्र के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में।

Note:-

Brick and Mortar Model of Banking.

Banking की तुलना में यह मॉडल Low Cost (कम लागत) रखता है।

Topics to be Covered from the Study Material

- (i) NPA का मुद्दा
- (ii) Bad bank → NARCL
- (iii) Tokenization
- (iv) The RBI Retail Direct
- (v) Financial Inclusion Index
- (vi) Digital Payment Index

- (vii) भारत में बैंकिंग संरचना
- (viii) गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFCs)
- (ix) भाभासी मुद्रा (Virtual Currency)
- (x) Central Bank Digital Currency
- (xi) Deposit Insurance (जमा बीमा)

